

## मेरठ में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, आरोपियों ने 5 लाख के नोट दुकानों में खपा दिए

छापेमारी के दौरान इनके कब्जे से 5.33 लाख रुपये के नकली नोट और 97.5 हजार रुपये के अर्धनिर्मित नकली नोट मिले हैं. आरोपी अब तक मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, दिल्ली-एनसीआर आदि जगहों पर लगभग 5 लाख रुपये के नकली नोट चला चुके हैं.

- भाषा

- Publish Date - 10:19 pm, Tue, 5 January 21



प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने नकली नोट (Fake Note) बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करके दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, गिरोह के सरगना सहित तीन लोग फरार हैं. छापेमारी के दौरान इनके कब्जे से 5.33 लाख रुपये के नकली नोट और 97.5 हजार रुपये के अर्धनिर्मित नकली नोट मिले हैं. पुलिस ने बताया कि गिरोह द्वारा मेरठ में नकली नोट बनाकर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़ आदि जगहों पर इन नोटों को चलाया जा रहा था.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गंगा नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली नोटों के साथ आरोपी महिला सुमन और उसकी बेटी को सीएनजी पंप के पास से गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से 500 रुपये के 10 नकली नोट और 200 रुपये के 19 नकली नोट बरामद हुए. गिरफ्तार महिला इन्चौली के सिखैडा गांव की रहने वाली है.

उन्होंने बताया कि बाद में इनकी निशानदेही पर सुभाषनगर इलाके में आरोपियों के किराये के मकान पर पहुंचकर मेरठ के रहने वाले रोबिन और हापुड़ निवासी सिकन्दर को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से नकली नोट बनाने की मशीन, कलर प्रिंटर, चार कटर, डाई आदि सामान जब्त किया गया.

पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य मिलकर नकली नोट तैयार कर छोटी दुकानों, पैठ बाजारों, रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों से सामान खरीदते थे. आरोपी अब तक मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, दिल्ली-एनसीआर आदि जगहों पर लगभग 5 लाख रुपये के नकली नोट चला चुके हैं.

Source: <https://www.tv9hindi.com/state/uttar-pradesh/police-busted-fake-note-racket-in-meerut-arrested-4-persons-449773.html>